



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 1981/कार्तिक 14, 1903
No. 360] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 5, 1981/KARTIKA 14, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1981

सं० 238/81—सा/मा-शुल्क

सा० का० नि० 582(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ गठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1982 (1982 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं जो इसमें साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जायेंगी ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1. 39-सीमाशुल्क तारीख 15 फरवरी, 1979	}	इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में "प्रबंध निदेशक" शब्दों के स्थान पर "प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक" शब्द रखे जायेंगे।
2. 133-सीमाशुल्क तारीख 12 मई, 1981		

[फा० सं० 370/88/81-सीमाशुल्क-1]

के० चंद्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1981

No. 238/81-CUSTOMS

G.S.R. 582(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962(52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1. 39-Customs dated 15th February, 1979	}	In each of these notifications, for the words "the Managing Director" the words "the Managing Director or the General Manager", shall be substituted.
2. 133-Customs, dated the 12th May, 1981.		

[F. No. 370/88/81-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.